

## खेत में अवैध शराब की फैक्ट्री, नकली शराब के 154 पत्ते व दो गाड़ी जब्त

Churu News - पुलिस ने सोमवार रात एक बजे मगरासर की रोही के एक खेत में नकली शराब बनाने का सामान व दो वाहन जब्त किए। एसएचओ मनोजकुमार...

Hindi News

Rajasthan

Churu

Sandwa News rajasthan news seized 154 paws and two cars of fake liquor factory illegal liquor factory  
Jul 24, 2019, 11:50 AM IST



पुलिस ने सोमवार रात एक बजे मगरासर की रोही के एक खेत में नकली शराब बनाने का सामान व दो वाहन जब्त किए। एसएचओ मनोजकुमार चौधरी के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि मगरासर की रोही में घासीराम जाट के खेत में सूने मकान के आगे अवैध शराब का कारोबार करने वाले दो-चार दिन से यहां गाड़ी में आकर नकली शराब बनाते हैं। पुलिस ने दबिश देकर नकली शराब बरामद की है। पुलिस ने नकली शराब से भरे हुए 154 पत्ते, शराब परिवहन में उपयोग की जाने वाली दो गाड़ी, 4.5 लीटर स्प्रीट, 1104 खाली पत्ते, 1335 लेबल, 1835 ढक्कन, सील करने की मशीन व सामग्री आदि जब्त की।

थानाधिकारी चौधरी ने बताया कि गाड़ी फंस जाने व रात होने के कारण नकली शराब बनाने वाले दो लोग भाग गए। कार्रवाई करने वाली टीम में हैड कांस्टेबल भागीरथसिंह, कांस्टेबल शैतानसिंह, कोडूराम, ओंकारमल, प्रतापसिंह, सज्जनकुमार व नंदलाल आदि शामिल थे। एसएचओ चौधरी ने बताया कि नकली शराब का यह अवैध कार्य क्षेत्र से बाहरी लोगों द्वारा किया जा रहा है। उक्त लोग सूने खेतों में यह काम करते हैं। जब्त किया गया स्प्रीट अत्यधिक घातक व जानलेवा है। एक लीटर स्प्रीट में 100 बोतल शराब बन सकती है। इस नकली शराब पीने से आदमी की मौत भी हो सकती है।

सांडवा. पकड़ी गई बोलेरो कैपर।

Source: <https://www.bhaskar.com/rajasthan/churu/news/rajasthan-news-seized-154-paws-and-two-cars-of-fake-liquor-factory-illegal-liquor-factory-115005-5081478.html>